

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को विदेशों में भेजा जाना

2112. कुमारी आलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा गया है, यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है और जिन देशों में उनको भेजा गया है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :
(क) जी, हाँ, पिछले दो वर्षों अर्थात् 1988-89 और 1989-90 के दौरान 14 अधिकारियों (समूह "क" से 12 तथा समूह "ख" से 2) को प्रशिक्षण पर यू० के०, जापान, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन भेजा गया था।

(ख) इन में से समूह "क" का एक अधिकारी अनुसूचित जाति का था।

Violation of Rules in granting Extension in Service in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

2113. SHRI SYED SIKTEY RAZI:
Will the Minister of TEXTILES be state:

(a) whether it is a fact that instructions/rules have been violated by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) and also proper procedures were not followed in the matter of granting extension of service On attaining the age of superannuation and on completion of prescribed period of deputation; and

(b) if so, what action is being taken to rectify matters and fix responsibility for the irregularities?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loan Melas held by the New Government

2114. SHRI KAPIL VERMA:
KUMARI ALIA:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any "loan melas" were held after installation of the new Government at the centre and whether the melas will be continued in the new financial year; and

(b) what is the amount distributed at the melas during the current financial year and also during the last three months and what is the allocation for next year?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) and (b) Neither the Central Government nor the Reserve Bank of India have formulated any scheme for disbursement of credit by banks through "loan melas" or Credit Camps. The public sector banks have been organising the credit camps in order to provide credit assistance to weaker sections. The data reporting system of banks does not yield any regular information in respect of such camps.

"कोटा" रेशमी धागे का उत्पादन

2115. श्री अजीत जोगी :

श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में "सरई" वृक्षों पर कोसा को